

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ऑटो इंश्योरेंस रेट्स पर फेयर डील की हिमायत कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 अप्रैल, 2021) – निवासी प्रांत में उच्चतम ऑटो इंश्योरेंस रेट्स का भुगतान कर रहे हैं और रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, प्रोविंसियल सरकार को जल्दी समीक्षा करने और ओनटैरियो में ऑटो इंश्योरेंस रेट्स में सुधार करने का अनुरोध कर रही है।

आज, सिटी काउंसिल (City Council) ने ऑटो इंश्योरेंस के लिए ब्रैम्पटन के निवासियों हेतु फेयर डील की हिमायत करने के लिए **#FairDealForBrampton** अभियान शुरू किया है। ऑटो इंश्योरेंस, पारिवारिक खर्चों का बड़ा हिस्सा है और ब्रैम्पटन के निवासी उन रेट्स का भुगतान करते हैं, जो ओनटैरियो के औसत ड्राइवर के द्वारा भुगतान किए जाने वाले रेट्स के मुकाबले लगभग 123 प्रतिशत अधिक हैं।

ब्रैम्पटन के ड्राइवर लगातार, 3,301 डॉलर जितने अधिक रेट्स के साथ, पूरी सिटी के पोस्टल कोड्स के मुताबिक, अलग-अलग ऑटो इंश्योरेंस कीमतें देख रहे हैं, जो प्रोविंसियल औसत से दो गुणा अधिक है। अब निवासी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और निम्नलिखित कार्यों के द्वारा सिटी के **#FairDealForBrampton** अभियान का समर्थन कर सकते हैं:

- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वेबसाइट पर [ऑनलाइन पटिशन \(online petition\)](#) पर हस्ताक्षर करना, जिसमें अपने लोकल मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट (एम.पी.पी.) (Member of Provincial Parliament) (MPP) को संबोधित करके, उन्हें यह बताना कि आप चाहते हैं कि वे ब्रैम्पटन के लिए समाधान का हिस्सा बनें। सिटी, प्राप्त की गई सभी पटिशनस एकत्र करके, संबंधित एम.पी.पी. (MPPs) के पास जमा करेगी।
- पड़ोसियों, परिवार और दोस्तों को [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर अभियान **#FairDealForBrampton** के बारे में बताकर इसे फैलाने में मदद करना और अभियान के बारे में ताज़ा समाचारों, मुख्य तथ्यों और जानकारी के प्रति सचेत रहना। अभियान के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करके ब्रैम्पटन की **#FairDealForBrampton** वेबसाइट पर जाएं।

हवाले

“चूंकि ब्रैम्पटन के और ओनटैरियो के आसपास के परिवार, कोविड-19 महामारी से पैदा होने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपट रहे हैं, सरकारों के लिए आवश्यक है कि वे ऑटो इंश्योरेंस की बढ़ती कीमतों पर ध्यान देने के लिए इकट्ठे काम करना जारी रखें। इसमें बहुत समय पहले बदलाव होना चाहिए था। हमें इंश्योरेंस रेट निर्धारित करने में पोस्टल कोड संबंधी पक्षपात को खत्म करना होगा। इकट्ठे मिलकर, ब्रैम्पटन के लोग तेज़ी से बढ़ रहे ऑटो इंश्योरेंस रेट्स पर आवाज़ उठाकर, **#FairDealForBrampton** पा सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के ड्राइवर, बहुत लंबे समय से केवल पोस्टल कोड्स के कारण बाकी प्रांत के मुकाबले, अधिक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रेट्स का भुगतान कर रहे हैं। अब प्रोविंसियल सरकार ने ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रेट्स की समीक्षा करने और इनमें सुधार करने के अपने वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। अब हमें **#FairDealForBrampton** मिली है।”

- *गुरप्रीत दिल्ली (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca